



विषय: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-180 में विवेचना के दौरान गवाहों के कथन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग कर ऑडियो / वीडियो रूप में रिकार्ड किए जाने सम्बन्धी प्राविधानों तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.07.2026 में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय / महोदया,

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अनुपालन में विवेचना के दौरान ऑडियो / वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हुये गवाहों के बयान रिकार्ड करने के सम्बन्ध में डीजी परिपत्र संख्या-24/2025 दिनांकित 21.07.2025 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं। परन्तु ऐसे प्रकरण मा० न्यायालय के संज्ञान में आ रहे हैं कि विवेचकों द्वारा इसका सम्यक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 180 में गवाहों के कथन ऑडियो वीडियो रूप में रिकॉर्ड करने के सम्बन्ध में निम्नवत प्राविधान हैं -

"Section 180BNS : (Examination of Witness by Police) :

(1) Any police officer making an investigation under this Chapter, or any police officer not below such rank as the State Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case.

(2) Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer, other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.

(3) The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section; and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records:

Provided that statement made under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means:

2- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन संख्या-24645/2026, आतिश उर्फ कृष्णकांत बनाम उ० प्र० राज्य (सम्बन्धित मु०अ०सं०-32/2026, अन्तर्गत धारा 85, 80(2) बीएनएसएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना बानपुर, जनपद ललितपुर) में पारित आदेश दिनांक 30.07.2026 में धारा 180 बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रथम सूचनाकर्ता एवं उसकी पत्नी के ऑडियो / वीडियो कथनों तथा केस डायरी में अंकित कथनों के परीक्षण के उपरान्त यह अभिलक्षित किया गया कि कथनों का एक भाग तो उनके द्वारा व्यक्त कथनों के अनुरूप है, जबकि शेष भाग विवेचक द्वारा स्वयं अंकित किया गया प्रतीत होता है। मा० न्यायालय ने यह भी पाया कि कथन अंकित करते समय गवाह द्वारा व्यक्त विवरण को यथावत अभिलिखित करने के स्थान पर ऐसे प्रश्न पूछने का प्रयास किया जो प्रकृति में दोषारोपण करने वाले हैं, जिसे पूर्णतः अनुचित मानते हुये मा० उच्च न्यायालय द्वारा धारा 180 बीएनएसएस के अन्तर्गत कथन अंकित करते समय अभियुक्त के विरुद्ध दोषारोपित किये जाने की प्रकृति के प्रश्न न पूछने तथा गवाह द्वारा व्यक्त कथन को उसकी अपनी भाषा में ही अभिलिखित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निम्नवत निर्देशित किया गया है -

5. The audio/video clip of the statement of first informant and his wife recorded under Section 180 BNSS was produced by the I.O. and on perusal of the same, it was found that the part of the statement mentioned in the case diary appears to be same as stated by the first informant and his wife but remaining part appears to be recorded by the I.O. himself.

6. From the aforesaid audio/ video, it is appeared that the police officer who recorded the audio/ video of the statement under Section 180 BNSS, instead of recording version of the incident as per first informant and his wife tried to suggest leading question which is in the nature inculpatory. This is absolutely incorrect.

7. The purpose of criminal justice administration is simply not to punish the guilty but also save the innocent person, therefore, the police should not try to suggest the material to witness against the accused. Instead thereof, the statement under Section 180 BNSS should be written in the language and version stated by the witness, except certain clarification.

8. Considering the aforesaid submissions, this Court directs the Director General of Police, Lucknow to issue necessary directions to all the police officers that while recording the statement under Section 180 BNSS, they should not suggest the question which could be inculpatory in nature to accused. They should simply write the version stated by the witness in his/her own language except seeking clarification on certain points.

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को भलीभाँति अवगत कराते हुये अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं तथा यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि धारा 180 बीएनएसएस के अन्तर्गत गवाहों के कथन अंकित करते समय अभियुक्त के विरुद्ध दोषारोपण किये जाने की प्रकृति के सूचक प्रश्न न पूछे जाएँ तथा कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के सिवाय गवाह द्वारा व्यक्त किये गये कथन को उसकी अपनी भाषा एवं शब्दों में ही अभिलिखित किया जाय।

इन निर्देशों के अनुपालन में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए पर्यवेक्षण अधिकारियों का दायित्व भी निर्धारित की जाय।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय
4/8
(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / प्रभारी जनपद / रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज/EOW/CID, उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, ATS एवं ACO, उ०प्र०।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।

राजीव कुश्या, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



परिपत्र संख्या-24/2025
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद एच. गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ - 226002
फोन नं 0522-2724003 / 2799240 फैक्स नं 0522-2724009
सीक्रेटरी नं 9454400101
ई-मेल policeup@nic.in
वेबसाइट <https://uppolice.gov.in>
दिनांक- जुलाई 21, 2025

विषय- BNSS- 2023 में विवेचना हेतु आडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किये जाने सम्बन्धी प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी को अवगत कराना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दिनांक 01.07.2024 से लागू हो गयी है, जिसमें श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन (audio video electronic mean) को धारा 2(1)(a) में तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार (electronic communication) को धारा 2(1)(i) में निम्नवत परिभाषित किया गया है-

Section 2(1)(a)-"audio-video electronic means" shall include use of any communication device for the purposes of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication and for such other purposes and by such other means as the State Government may, by rules provide;

Section 2(1)(i)-"electronic communication" means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person) by means of an electronic device including a telephone, mobile phone, or other wireless telecommunication device, or a computer, or audio-video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification, by the Central Government;

विवेचना में आडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग से सम्बन्धित प्रमुख प्राविधान तथा उनके प्रयोग का Legal Mandate निम्नवत है-

**SUMMARY OF LEGAL PROVISIONS RELATED TO VIDEOGRAPHY
IN BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA**

S.N.	Particulars	Relevant Legal Provision	Legal Mandate	Place of Recording or capturing
1	Identification of person arrested.	Sec 54- Identification of person arrested. Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with and the identification process shall be recorded by any audio-video electronic means.	Mandatory	Designated place of identification
2	Recording of Search and Seizure	Sec 105- Recording of search and seizure through audio-video electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.	Mandatory	Place of search from where recovery is to be made
3	Information in cognizable cases FIR For sexual offences where the victim is Mentally or	Sec 173- Information in cognizable cases. Provided further that- (a) in the event that the person against whom an offence under section 64; section 65; section 66, section 67, section 68, section 69, section 70, Section 71, section 74, section 75, section 76,	Mandatory	Residence of victim/ any place

	physically disabled	section 77, section 78, section 79 or section 124 of the BNS, 2023 is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or a special educator, as the case may be; b) the recording of such information shall be videographed.		
4	Recording of a statement by police for offence of Rape	Sec 176- Procedure for Investigation. Provided further that in relation to an offence of rape, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality and such statement may also be recorded through any audio-video electronic means including mobile phone.	Optional	Residence of victim/any place of Choice of victim
5	Videography recording of the Scene of Crime	Sec 176 Procedure for investigation Sub-section (3) - On receipt of every information relating to the commission of an offence which is made punishable for seven years or more, the officer in charge of a police station shall, from such date, as may be notified within a period of five years by the State Government in this regard, cause the forensics expert to visit the crimes scene to collect forensic evidence in the offence and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device.	Optional as of now But Mandatory from the date notified by State Govt. within 5 years of 1st July 2024	Scene of Crime

6	Examination of witness by police	Sec 180 - Examination of witnesses by police. (3) The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section; and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records: Provided that statement made under this sub-section may also be recorded by audio video electronic means.	Optional	Police station or any other place
7	Recording of confessions & statements by magistrates.	Sec 183(1)- Recording of confessions & statements by magistrates. Provided that any confession or statement made under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offence: Sec 183(6)(a)- Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently, mentally or physically disabled, the statement made by the person, with the assistance of an interpreter or a special educator, shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.	Optional Mandatory	At the Court of Magistrate
8	Orders for custody and Disposal of property	Sec 497- Order for custody and disposal of property pending trial in certain cases. (3) The Court or the Magistrate shall cause to be taken the photograph and if necessary, videograph on mobile phone or any electronic media, of the property referred to in subsection (1).	Direction is for the Court: Photograph mandatory Videography optional	Place of custody of property or as directed by the court.

गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी-सात-सा0से0 (विविध-02)/2025 दिनांकित 11.01.2025 द्वारा प्रदेश के कमिश्नरेंट्स को BNSS, 2023 के अधीन विवेचना एवं फॉरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी सम्बन्धी प्राविधानों के शत प्रतिशत अनुपालन हेतु तथा प्रदेश के शेष जनपदों में घटनास्थल का फॉरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी प्रथम चरण में अपराध की

गम्भीरता के क्रम में जनपद स्तर पर उपकरणों एवं मानव संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया जाता है कि अपने कमिश्नेट के सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर फॉरेन्सिक विशेषज्ञ द्वारा अनिवार्य रूप से घटनास्थल निरीक्षण तथा घटनास्थल की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराते हुये BNSS की धारा 176(3) का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें।

प्रदेश के जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय सभी मामलो हेतु स्थलीय निरीक्षण हेतु फॉरेन्सिक टीम उपलब्ध न हो सके तो जनपद स्तर पर उपलब्ध उपकरणों एवं मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुये सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अधिक से अधिक मामलों में घटनास्थल का फॉरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराना सुनिश्चित करें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों के क्रम में पुलिस अधिकारी प्रत्येक तलाशी, जब्ती, निरीक्षण घटनास्थल, अभिलिखित करने के दौरान संकलित डिजिटल साक्ष्यों एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को वर्तमान में प्रचलित ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर शत प्रतिशत अपलोड करेंगे एवं यथा आवश्यकता FIR से लिंक करना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी अपेक्षा की जाती है कि कमिश्नेट/जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर सभी अधीनस्थ अधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं विवेचकों को उपरोक्त प्राविधानों से भली भाँति अवगत कराते हुये उनका सम्यक अनुपालन अपने निकट पर्यवेक्षण में सुनिश्चित करायें।

66/11/15

(सहाय कृष्णा)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभागी जनपद/रिलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 सम्प्रदाय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2 सम्प्रदाय अपराध पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3 सम्प्रदाय जोनल अपराध पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 4 सम्प्रदाय परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उपायमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।